

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115] दिल्ली, शुक्रवार, मई 25, 2018/ज्येष्ठ 4, 1940 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 531
No. 115] DELHI, FRIDAY, MAY 25, 2018/JYAISTHA 4, 1940 [N.C.T.D. No. 531

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 24 मई, 2018

फा.सं. 97/डब्लू. ऍफ़. डी./सी. ओ.टी/17-18/1698-1707.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, धौला कुआँ मेट्रो स्टेशन के नजदीक टी-जंक्शन जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करना, राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर जंक्शन के अंत तक और डिफेन्स एरिया के पास टी-जंक्शन के सुधार सहित एनएच - 8 पर डिफेन्स एरिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ीकरण के सुधार हेतु नीचे दिए गए निम्नलिखित विवरण के अनुसार कुल परियोजना क्षेत्र 26.713 हैक्टेयर (लगभग) क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

स्थान	क्षेत्र का विस्तार (हैक्ट.)	हटाए/स्थानांतरित किए जाने वाले वृक्षों की संख्या	अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
टी-जंक्शन धौला कुआँ मेट्रो स्टेशन के नजदीक के सुधार हेतु और एनएच - 8 के चौड़ीकरण धौला कुआँ से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग - 8 के टी-जंक्शन के अंत तक व डिफेन्स एरिया के नजदीक टी-जंक्शन के सुधार व चौड़ीकरण राष्ट्रीय राजमार्ग डिफेन्स एरिया तक एनएच - 8 नई दिल्ली के हेतु।	(i) 14.433 (लगभग) नॉन-मोर्फोलॉजिकल रिज क्षेत्र (ii) 12.28 मोर्फोलॉजिकल रिज क्षेत्र	233 930	11630
कुल योग	26.713	1163	11630

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है।

(क) आवेदक का सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 6,62,91,000/-रुपये (छः करोड़ बासठ लाख इक्यानवे हजार रुपये मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

परियोजना संख्या	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
1.	100 % (11630) पौधों का उपभोगी संस्था यानि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन, यमुना नदी ओर ओल्ड आयरन ब्रिज पर दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 के तहत 11630 पौधों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई कुल 21.52 हेक्टेयर क्षेत्र में से 11.63 हेक्टेयर भूमि पर किया जायेगा।	11630	रु- 6,62,91,000 /-	उप-वन संरक्षक (पश्चिमी)/ वन अधिकारी

(ख) प्रतिपूरक वृक्षारोपण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया जायेगा तथा उनका सात वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा तथा उनका सफलतापूर्वक स्थापना तक निगरानी की जाएगी:-

- (i) 100 % (11630) पौधों का उपभोगी संस्था यानि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन, यमुना नदी ओर ओल्ड आयरन ब्रिज पर 21.52 हेक्टेयर क्षेत्र में से 11.63 हेक्टेयर भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण पत्र संख्या. F.32(19)/17/IL/4654 dated 06/11/2017 द्वारा आवंटित की गई भूमि पर किया जायेगा।
- (ग) 12.28 हेक्टेयर के परियोजना क्षेत्र में 930 वृक्षों को काटा/ हटाया जाने के लिए सी.ई.सी. / माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोफ़ोर्लॉजिकल रिज के अंदर अनुमोदन किया गया है। सी.ई.सी. / माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोफ़ोर्लॉजिकल रिज के अंदर में यह एक ही परियोजना है जिसमें मोफ़ोर्लॉजिकल रिज और गैर-मोफ़ोर्लॉजिकल रिज दोनों शामिल हैं और 9300 पौधों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण 9.3 हेक्टेयर में (उपरोक्त (ख) के अनुसार) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कुल 21.52 हेक्टेयर आवंटित क्षेत्र में किया जायेगा।
- (घ) शेष 233 वृक्षों के लिए गैर-मोफ़ोर्लॉजिकल रिज में अनुमति सरकार के अनुमोदन के अनुसार की जा रही है जिसके लिए प्रावधान उपरोक्त (ख) के अनुसार, 2300 पौधों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई कुल 21.52 हेक्टेयर क्षेत्र में से 2.33 हेक्टेयर भूमि पर किया जायेगा।
- (ङ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मोफ़ोर्लॉजिकल रिज के अनुपात में परियोजना लगत का 5% RMB Fund में जमा करेगा। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 21.52 हेक्टेयर क्षेत्र में 21500 पौधों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चैन लिंक फेंसिंग सहित लागत वन एवं वन्य जीव विभाग, दिल्ली सरकार को अग्रिम जमा करेगा। इस सम्बन्ध में उप-वन संरक्षक (पश्चिमी) द्वारा पत्र संख्या- F.97/WFD/COT/17-18/PART-II/552-54 दिनांक- 07.05.2018 के पत्र को सज्जन में लें।
- (च) परियोजना क्षेत्र में कुल 2142 वृक्षों में से गैर-मोफ़ोर्लॉजिकल रिज में स्थित 979 वृक्षों को हटाने/ गिराने का अनुमोदन पहले से ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अधिसूचना सं. F.97/WFD/COT/17-18/PART-II/552-54 दिनांक-07.05.2018 के माध्यम से जारी की जा चुकी है और परियोजना के अंतर्गत 21.52 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल में 9790 पौधों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर (उपरोक्त (ख) के अनुसार) निर्देशित किया जा चुका है।
- (छ) 1163 वृक्षों के काटे/प्रत्यारोपण किए जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ी की नीलामी उपभोगी संस्था द्वारा की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि सरकार को राजस्व के रूप में उपभोगी संस्था द्वारा जमा की जाएगी।
- (ज) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पेड़ों की ऊपरी शाखाएं (लोप्स एंड टॉप्स) की जलाऊ लकड़ी की प्रजातियों को काटे जाने के पश्चात प्राप्त जलाऊ लकड़ी मुफ्त में दिल्ली नगर निगम के संबंधित कर्मचारियों को सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाए।
- (झ) वृक्ष काटे जाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकड़ियों की ढुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी (पश्चिमी) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 24th May, 2018

No.F.97/WFD/COT /17-18/1698-1707.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of the National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest, from out of the total project area of 26.713 ha (approx), exempts the following area as detailed below for improvement of T-Junction near Dhaula Kuan Metro Station for Widening of National Highway from Dhaula Kuan up to end of Junction on NH-8 and improvement of T-Junction near Defence Area including widening of National Highway up to Defence area on NH-8, New Delhi, from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location.	Extent of Area (ha.)	No. of trees required to be removed/ Transplant.	Compensatory plantation required (No. of trees).
Improvement of T-Junction near Dhaula Kuan Metro Station for Widening of National Highway from Dhaula Kuan up to end of Junction on NH-8 and improvement of T-Junction near Defence Area including widening of National Highway upto Defence area on NH-8, New Delhi.	(i) 14.433 (approx of non-Morphological ridge area). (ii) 12.28 (Morphological ridge area)	233 930	11630
Total	26.713	1163	11630

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

- (a) The applicant shall make an advance deposit of an amount of Rs. 6,62,91,000 /- (Rupees Six Crore Sixty Two Lakh Ninety One Thousand Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows:

Project No.	Location of Compensatory Afforestation plantation	Number of saplings to be planted (Number of trees)	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.)	To be Deposited with Forest Division
1.	100% (11630) no. by the West Forest Division on behalf of User Agency i.e NHAI over 11.63 ha. (approx) area from out of the total 21.52 ha. Land allotted by DDA at Shastri Park Metro Station, River Yamuna and Old Iron Bridge for compensatory plantation of 11630 saplings under DPTA, 1994.	11630	6,62,91,000 /-	Deputy Conservator of Forests (West)/ Tree Officer

- (b) The compensatory plantation as shown below will be raised and maintained for Seven years and monitored till its successful establishment:-

(ii) 11630 Nos. by the West Forest Division on behalf of User Agency i.e NHAI over 11.63 ha. (approx) area from out of the total 21.52 ha. Land at Shastri Park Metro Station, River Yamuna and Old Iron Bridge allotted by DDA vide letter No. F.32(19)/17/IL/4654 dated 06/11/2017.

- (c) The felling of 930 trees in project area of 12.28 ha. falling inside morphological ridge is granted approved by CEC/ Hon'ble Supreme Court as it is a single project consisting morphological ridge as well as non-morphological ridge and against which compensatory plantation of 9300 trees will be done in 9.3 ha. approx. out of total project area of 21.52 ha. allotted by DDA vide (b) above.

- (d) The permission for remaining 233 trees in non-Morphological Ridge is being issued as per approval of Govt. against which compensatory plantation of 2330 trees in 2.33 ha. area approx out of the total area of 21.52 ha. allotted by DDA vide (b) above.
- (e) The NHAI shall deposit 5% of the project cost proportionate to the morphological ridge area with RMB fund together with cost of raising 21,500 plants including chain link fencing over the total compensatory plantation land of 21.52 ha. in advance with Forest Department of Govt. of NCT of Delhi. In this connection Deputy Conservator of Forests (West) letter No. F.97/WFD/COT/17-18/PART-II/552-54 dated 07.05.2018 may also be referred.
- (f) The felling approval of another 979 trees falling in non-morphological ridge has already been issued to NHAI earlier out of the total 2142 trees in the project area vide notification No. F.97/WFD/COT/17-18/8075-83 dated 25.01.2018 and against which a compensatory plantation of 9790 has been directed in the total area of 21.52 ha. allotted by DDA vide (b) above against the said project.
- (g) The timber obtained from felling/ transplanting of 1163 trees shall be auctioned by the land owning agency and deposit the proceeds as revenue to the government.
- (h) The lops and tops obtained on removal of firewood species of trees shall be handed over by the National Highway Authority of India (NHAI) to the officials concerned of MCD for use in public crematoria of Delhi as firewood, free of cost.
- (i) Before shifting of wood if any, from site of removal of trees, transportation permission for transportation of the said wood shall be obtained from Tree Officer (West).

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
A.K. SINGH, Secy. (Env. & Forests)